

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

11 नवंबर, 2021

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया छात्र ने ईवाई कैफ्टा केस चैंपियनशिप 2021 में प्रथम उपविजेता का स्थान हासिल किया

सैयद मोहम्मद बिलाल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तीसरे वर्ष के छात्र ने अर्न्स्ट एंड यंग (EY) द्वारा 3 अक्टूबर -7 नवम्बर, 2021 के बीच आयोजित राष्ट्रीय कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा के 2 संस्करण में बेसिक स्ट्रीम (बेसिक्स ऑफ़ रिस्क मैनेजमेंट) की ईवाई कैफ्टा केस चैंपियनशिप 2021 में प्रथम उपविजेता का स्थान हासिल किया है।

बिलाल जामिया के एकमात्र छात्र हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में आयोजित इस उल्लेखनीय प्रतियोगिता में बेसिक और एडवांस स्ट्रीम की सभी श्रेणियों में एक स्थान हासिल किया है। देश भर के 3000 से अधिक कॉलेज के छात्रों ने ईवाई कैफ्टा केस चैंपियनशिप 2021 में भाग लिया। इस वर्ष के संस्करण में आईआईटी रुड़की, आईआईएम बैंगलोर, एलएसआर दिल्ली विश्वविद्यालय, एनएमएमएस मुंबई, आदि देश के प्रमुख संस्थानों से बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गई।

ईवाई कैफ्टा केस चैंपियनशिप भारत भर में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर के छात्रों के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की केस स्टडी प्रतियोगिता है। प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे डोमेन ज्ञान में कुशल हों और फिर संगठन और बाजार की स्थितियों के गहन शोध के साथ रणनीतिक कॉर्पोरेट कार्यों का प्रस्ताव दें।

उन्हें ईवाई कार्यालय में एक महीने के लाइव इंटरनशिप अवसर और ईवाई के प्रतिष्ठित सीएफटीए (एप्लाइड फाइनेंस, ट्रेजरी और एनाटिक्स में प्रमाण पत्र) पाठ्यक्रम पर 75% की छात्रवृत्ति से पुरस्कृत किया जा रहा है, जो विशेष रूप से छात्रों (स्कॉलर कोर्स) और (कार्यकारी कोर्स) उद्योग में अलग से मध्य स्तर के कामकाजी पेशेवरों, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। पाठ्यक्रम मॉड्यूल में 100 अधिगम के घंटे, 14 मॉड्यूल, 7 शिक्षण सत्र शामिल हैं।

अतीत में इंटर-कॉलेज केस प्रतियोगिताएं जीतने के बाद, बिलाल कुछ समय से इस राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कॉर्पोरेट प्रतियोगिता पर नजर गड़ाए हुए थे और उन्होंने निश्चित रूप से उस इनाम और ब्रांड टैग का दावा किया है जो बिग 4 अद्भुत अंदाज़ में पेश करता है।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया